

**H**

**2015 (I)**  
**भौतिक विज्ञान**  
**प्रश्न पत्र**

विषय कोड पुस्तिका कोड

**5****B**

समय : 3:00 घंटे

पूर्णांक : 200 अंक

**अनुदेश**

1. आपने हिन्दी को माध्यम चुना है। इस परीक्षा पुस्तिका में पचहत्तर (20 भाग 'A' में + 25 भाग 'B' + 30 भाग 'C' में) बहुल विकल्प प्रश्न (MCQ) दिए गए हैं। आपको भाग 'A' में से अधिकतम 15 और भाग 'B' में 20 तथा भाग 'C' में से 20 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यदि निर्धारित से अधिक प्रश्नों के उत्तर दिए गए तब केवल पहले भाग 'A' से 15, भाग 'B' से 20 तथा भाग 'C' से 20 उत्तरों की जांच की जाएगी।
2. **ओ.एम.आर.** उत्तर पत्रक अलग से दिया गया है। अपना रोल नम्बर और केन्द्र का नाम लिखने से पहले यह जांच लीजिए कि पुस्तिका में पृष्ठ पूरे और सही हैं तथा कहीं से कटे-फटे नहीं हैं। यदि ऐसा है तो आप इन्विजीलेटर से उसी कोड की पुस्तिका बदलने का निवेदन कर सकते हैं। इसी तरह से **ओ.एम.आर.** उत्तर पत्रक को भी जांच लें। इस पुस्तिका में रफ कास करने के लिए अतिरिक्त पन्ने संलग्न हैं।
3. **ओ.एम.आर.** उत्तर पत्रक के पृष्ठ 1 में दिए गए स्थान पर अपना रोल नम्बर, नाम तथा इस परीक्षा पुस्तिका का क्रमांक लिखिए, साथ ही अपना हस्ताक्षर भी अवश्य करें।
4. आप अपनी **ओ.एम.आर.** उत्तर पत्रक में रोल नंबर, विषय कोड, पुस्तिका कोड और केन्द्र कोड से संबंधित समुचित वृत्तों को काले बॉल पेन से अवश्य काला करें। यह एक मात्र परीक्षार्थी की जिम्मेदारी है कि वह **ओ.एम.आर.** उत्तर पत्रक में दिए गए निर्देशों का पूरी सावधानी से पालन करें, ऐसा न करने पर कम्प्यूटर विवरणों का सही तरीके से अकूटित नहीं कर पाएगा, जिससे अंततः आपको हानि, जिसमें आपकी **ओ.एम.आर.** उत्तर पत्रक की अस्वीकृति भी शामिल है, हो सकती है।
5. भाग 'A' में प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक, भाग 'B' में प्रत्येक प्रश्न के 3.5 अंक तथा 'C' में प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है। प्रत्येक गलत उत्तर का ऋणात्मक मूल्यांक 25 % की दर से किया जाएगा।
6. प्रत्येक प्रश्न के नीचे चार विकल्प दिए गए हैं। इनमें से केवल एक विकल्प ही "सही" अथवा "सर्वोत्तम हल" है। आपको प्रत्येक प्रश्न का सही अथवा सर्वोत्तम हल ढूँढ़ना है।
7. नकल करते हुए या अनुचित तरीकों का प्रयोग करते हुए पाए जाने वाले परीक्षार्थियों का इस और अन्य भावी परीक्षाओं के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है।
8. परीक्षार्थी को उत्तर या रफ पन्नों के अतिरिक्त कहीं और कुछ भी नहीं लिखना चाहिए।
9. केलकूलेटर का उपयोग करने की अनुमति नहीं है।
10. परीक्षा समाप्ति पर छिद्र बिन्दु चिह्नित स्थान से **ओ.एम.आर.** उत्तर पत्रक को विभाजित करें। इन्विजीलेटर को मूल **ओ.एम.आर.** उत्तर पत्रक सौंपने के पश्चात आप इसकी कॉर्बनलेस प्रतिलिपि ले जा सकते हैं।
11. हिन्दी माध्यम/संस्करण के प्रश्न में विसंगति होने/पाये जाने पर अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा।
12. केवल परीक्षा की पूरी अवधि तक बैठने वाले परीक्षार्थी को ही परीक्षा पुस्तिका साथ ले जाने की अनुमति दी जाएगी।

रोल नंबर :

नाम :

OMR उत्तर पत्रक नंबर :

परीक्षार्थी द्वारा भरी गई जानकारी को मैं सत्यापित करता हूँ।

इन्विजीलेटर के हस्ताक्षर

रफ कार्य/ROUGH WORK

### उपयोगी मूलभूत नियतांक

$m$	इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान	$9.11 \times 10^{-31} \text{kg}$
$h$	प्लांक नियतांक	$6.63 \times 10^{-34} \text{J sec}$
$e$	इलेक्ट्रॉन का आवेश	$1.6 \times 10^{-19} C$
$k$	मान नियतांक	$1.38 \times 10^{-23} \text{J/K}$
$c$	प्रकाश का वेग	$3.0 \times 10^8 \text{m/sec}$
$\text{leV}$	$1.6 \times 10^{-19} \text{J}$	
$\text{amu}$	$1.67 \times 10^{-27} \text{kg}$	
$G$	$6.67 \times 10^{-11} \text{Nm}^2 \text{kg}^{-2}$	
$R_y$	नियतांक	$1.097 \times 10^7 \text{m}^{-1}$
$N_A$	आवोगाड्रो संख्या	$6.023 \times 10^{23} \text{mole}^{-1}$
$\epsilon_0$	$8.854 \times 10^{-12} \text{Fm}^{-1}$	
$\mu_0$	$4\pi \times 10^{-7} \text{Hm}^{-1}$	
$R$	मोलर गैस नियतांक	$8.314 \text{JK}^{-1} \text{mole}^{-1}$

### USEFUL FUNDAMENTAL CONSTANTS

$m$	Mass of electron	$9.11 \times 10^{-31} \text{kg}$
$h$	Planck's constant	$6.63 \times 10^{-34} \text{J sec}$
$e$	Charge of electron	$1.6 \times 10^{-19} C$
$k$	Boltzmann constant	$1.38 \times 10^{-23} \text{J/K}$
$c$	Velocity of Light	$3.0 \times 10^8 \text{m/sec}$
$\text{leV}$	$1.6 \times 10^{-19} \text{J}$	
$\text{amu}$	$1.67 \times 10^{-27} \text{kg}$	
$G$	$6.67 \times 10^{-11} \text{Nm}^2 \text{kg}^{-3}$	
$R_y$	Rydberg constant	$1.097 \times 10^7 \text{m}^{-1}$
$N_A$	Avogadro's number	$6.022 \times 10^{23} \text{mole}^{-1}$
$\epsilon_0$	$8.854 \times 10^{-12} \text{Fm}^{-1}$	
$\mu_0$	$4\pi \times 10^{-7} \text{Hm}^{-1}$	
$R$	Molar Gas constant	$8.314 \text{JK}^{-1} \text{mole}^{-1}$

### LIST OF THE ATOMIC WEIGHTS OF THE ELEMENTS

Element	Symbol	Atomic Number	Atomic Weight	Element	Symbol	Atomic Number	Atomic Weight
Actinium	Ac	89	(227)	Mercury	Hg	80	200.59
Aluminium	Al	13	26.98	Molybdenum	Mo	42	95.94
Americium	Am	95	(243)	Neodymium	Nd	60	144.24
Antimony	Sb	51	121.75	Neon	Ne	10	20.183
Argon	Ar	18	39.948	Neptunium	Np	93	(237)
Arsenic	As	33	74.92	Nickel	Ni	28	58.71
Astatine	At	85	(210)	Niobium	Nb	41	92.91
Barium	Ba	56	137.34	Nitrogen	N	7	14.007
Berkelium	Bk	97	(249)	Nobelium	No	102	(253)
Beryllium	Be	4	9.012	Osmium	Os	76	190.2
Bismuth	Bi	83	208.98	Oxygen	O	8	15.9994
Boron	B	5	10.81	Palladium	Pd	46	106.4
Bromine	Br	35	79.909	Phosphorus	P	15	30.974
Cadmium	Cd	48	112.40	Platinum	Pt	78	195.09
Calcium	Ca	20	40.08	Plutonium	Pu	94	(242)
Californium	Cf	98	(251)	Polonium	Po	84	(210)
Carbon	C	6	12.011	Potassium	K	19	39.102
Cerium	Ce	58	140.12	Praseodymium	Pr	59	140.91
Cesium	Cs	55	132.91	Promethium	Pm	61	(147)
Chlorine	Cl	17	35.453	Protactinium	Pa	91	(231)
Chromium	Cr	24	52.00	Radium	Ra	88	(226)
Cobalt	Co	27	58.93	Radon	Rn	86	(222)
Copper	Cu	29	63.54	Rhenium	Re	75	186.23
Curium	Cm	96	(247)	Rhodium	Rh	45	102.91
Dysprosium	Dy	66	162.50	Rubidium	Rb	37	85.47
Einsteinium	Es	99	(254)	Ruthenium	Ru	44	101.1
Erbium	Er	68	167.26	Samarium	Sm	62	150.35
Europium	Eu	63	151.96	Scandium	Sc	21	44.96
Fermium	Fm	100	(253)	Selenium	Se	34	78.96
Fluorine	F	9	19.00	Silicon	Si	14	28.09
Francium	Fr	87	(223)	Silver	Ag	47	107.870
Gadolinium	Gd	64	157.25	Sodium	Na	11	22.9898
Gallium	Ga	31	69.72	Strontium	Sr	38	87.62
Germanium	Ge	32	72.59	Sulfur	S	16	32.064
Gold	Au	79	196.97	Tantalum	Ta	73	180.95
Hafnium	Hf	72	178.49	Technetium	Tc	43	(99)
Helium	He	2	4.003	Tellurium	Te	52	127.60
Holmium	Ho	67	164.93	Terbium	Tb	65	158.92
Hydrogen	H	1	1.0080	Thallium	Tl	81	204.37
Indium	In	49	114.82	Thorium	Th	90	232.04
Iodine	I	53	126.90	Thulium	Tm	69	168.93
Iridium	Ir	77	192.2	Tin	Sn	50	118.69
Iron	Fe	26	55.85	Titanium	Ti	22	47.90
Krypton	Kr	36	83.80	Tungsten	W	74	183.85
Lanthanum	La	57	138.91	Uranium	U	92	238.03
Lawrencium	Lr	103	(257)	Vanadium	V	23	50.94
Lead	Pb	82	207.19	Xenon	Xe	54	131.30
Lithium	Li	3	6.939	Ytterbium	Yb	70	173.04
Lutetium	Lu	71	174.97	Yttrium	Y	39	88.91
Magnesium	Mg	12	24.312	Zinc	Zn	30	65.37
Manganese	Mn	25	54.94	Zirconium	Zr	40	91.22
Mendelevium	Md	101	(256)				

\*Based on mass of C<sup>12</sup> at 12.000... . The ratio of these weights of those on the order chemical scale (in which oxygen of natural isotopic composition was assigned a mass of 16.0000...) is 1.000050. (Values in parentheses represent the most stable known isotopes)

## भाग /PART 'A'

1. यदि

$$\begin{array}{r} 2 \ a \\ \times b \ 2 \\ \hline c \ 6 \\ 8 \ 4 \\ \hline 8 \ d \ 6 \end{array}$$

हैं; यहां a, b, c तथा d दशमलव अंक हैं।

तब a + b =

1. 4  
3. 11

2. 9  
4. 16

1. If

$$\begin{array}{r} 2 \ a \\ \times b \ 2 \\ \hline c \ 6 \\ 8 \ 4 \\ \hline 8 \ d \ 6 \end{array}$$

Here a, b, c and d are digits.

Then a + b =

1. 4  
3. 11

2. 9  
4. 16

2. किसी त्रिभुज की परिमिति, इसके अंतर्वृत की त्रिज्या तथा एक संख्या का गुणनफल उस त्रिभुज के क्षेत्रफल के समान है। संख्या है।

1. 1/4  
3. 1/2


2. 1/3  
4. 1

2. The product of the perimeter of a triangle, the radius of its in-circle, and a number gives the area of the triangle. The number is

1. 1/4  
3. 1/2


2. 1/3  
4. 1

3. दिये गये ग्राफ की सहायता से निम्न में से गलत कथन को जात कीजिए



1. गलनांक दाब के साथ बढ़ता है।
2. गलनांक दाब के साथ घटता है।
3. क्वथनांक दाब के साथ बढ़ता है।
4. ठोस, द्रव व गैस समान दाब व ताप पर सहवास कर सकती हैं।

3. By reading the accompanying graph, determine the INCORRECT statement out of the following.



1. Melting point increases with pressure
2. Melting point decreases with pressure
3. Boiling point increases with pressure
4. Solid, liquid and gas can co-exist at the same pressure and temperature

4. माना कि r एक धन संख्या है जिसके लिये

$$r^{(1/1234)} + r^{(-1/1234)} = 2$$

तो

$$r^{4321} + r^{-4321} = ?$$

1. 2  
3.  $2^{3087}$

2.  $2^{(4321/1234)}$   
4.  $2^{1234}$

4. Let r be a positive number satisfying

$$r^{(1/1234)} + r^{(-1/1234)} = 2$$

Then

$$r^{4321} + r^{-4321} = ?$$

1. 2  
3.  $2^{3087}$

2.  $2^{(4321/1234)}$   
4.  $2^{1234}$

5. खुले खिड़कियों वाली तेज चलने वाली एक गाड़ी में चालक लगातार अंदर आती हुई पवन को अनुभव करता है। परंतु गाड़ी के अंदर का दाब बढ़ता नहीं देखा जाता, क्योंकि

1. आगे की खिड़की से अंदर आने वाली पवन पिछली खिड़की से बाहर चली जाती है।

2. पवन हर खिड़की से अंदर आकर बाहर जाती है परंतु चालक के मात्र अंदर आती पवन का अनुभव करता है।

3. पवन सचमुच अंदर नहीं आती, तथा पवन का अनुभव भ्रम मात्र है।

4. ठंडी हवा ताप को घटाती है, अंतः दाढ़ बढ़ता नहीं है।

5. In a fast moving car with open windows, the driver feels a continuous incoming breeze. The pressure inside the car, however, does not keep increasing because,

  1. air coming in from the front window goes out from the rear.
  2. air comes in as well as goes out through every window but the driver only feels the incoming one.
  3. no air actually comes in and the feeling of breeze is an illusion.
  4. cool air reduces the temperature therefore the pressure does not increase.

6. निम्नवत रखे गये अक्षरों पर विचारें:

U\_G\_C\_C\_S\_I\_R

हर अक्षर अपने दायें एक कदम बढ़ता है तथा चरम दायें स्थित अक्षर प्रथम स्थान पर आकर एक आपरेशन पूर्ण करता है। निम्न दिये गये आपरेशन संख्याओं में से किसके बाद दोनों C पास-पास नहीं रहते?

1. 3	2. 10
3. 19	4. 25

6. Consider a series of letters placed in the following way:

U\_G\_C\_C\_S\_I\_R

Each letter moves one step to its right and the extreme right letter takes the first position, completing one operation. After which of the following numbers of operations do the Cs not sit side by side?

1. 3	2. 10
3. 19	4. 25

7. एक प्लवक एक नदी में बह रहा है जो कि एक नाव से धारा की दिशा में 10 मीटर आगे है। नाव की स्थिर पानी में गति 10 मी./मिनट है। यदि नाव को धारा की दिशा में चलाया जाये तो प्लवक तक पहुंचने में लगने वाला समय

  1. 1 मिनट होगा
  2. 1 मिनट से ज्यादा होगा
  3. 1 मिनट से कम होगा
  4. यदि नदी की गति जात हो तभी जात किया जा सकता है।

7. A float is drifting in a river, 10 m downstream of a boat that can be rowed at a speed of 10 m/ minute in still water. If the boat is rowed downstream, the time taken to catch up with the float

  1. will be 1 minute
  2. will be more than 1 min
  3. will be less than 1 min
  4. can be determined only if the speed of the river is known

8. यदि 10 प्रेक्षणों में से आप सिर्फ एक प्रेक्षण को बदलें तो निम्न में से कौन शर्तिया बदलेगा?

1. माध्य	2. माध्यक
3. उच्चक	4. मानक विचरण

8. If you change only one observation from a set of 10 observations, which of the following will definitely change?

  1. Mean
  2. Median
  3. Mode
  4. Standard deviation

9. बक्सों की एक अनंत पंक्ति बनाई गई है। इसके प्रत्येक बक्से का आयतन पिछले बक्से के आयतन का आधा है। यदि सबसे बड़े बक्से का आयतन 20 cc है तो बक्सों का कुल आयतन क्या होगा?

  1. अनंत
  2. 400 cc
  3. 40 cc
  4. 80 cc

9. An infinite row of boxes is arranged. Each box has half the volume of the previous box. If the largest box has a volume of 20 cc, what is the total volume of all the boxes?  
 1. Infinite                    2. 400 cc  
 3. 40 cc                      4. 80 cc
10. उत्तल अष्ट भुज के सब कर्णों के जोड़ों के प्रतिच्छेद बिंदुओं की अधिकतम संख्या है  
 1. 70                         2. 400  
 3. 120                       4. 190
10. The maximum number of points formed by intersection of all pairs of diagonals of convex octagon is  
 1. 70                         2. 400  
 3. 120                       4. 190
11. निम्न में से किस का मान  $2^{2^2}$  के समान है?  
 1.  $2^6$                         2.  $2^8$   
 3.  $2^{16}$                       4.  $2^{222}$
11. Which of the following values is same as  $2^{2^2}$ ?  
 1.  $2^6$                         2.  $2^8$   
 3.  $2^{16}$                       4.  $2^{222}$
12. निम्न प्रत्येक शब्दों के समूहों में एक संख्या छिपी हुई है, जिसके आधार पर आप उन्हें आरोही क्रम में रख सकते हैं। सही उत्तर का चयन कीजिये।  
 I. गलती नहीं की  
 J. दोष रहित मानव  
 K. भेड़िये करीब आये  
 L. नहीं जी, रोज़ का काम है  
 1. L, K, J, I                2. I, J, K, L  
 3. K, L, J, I                4. K, J, I, L
12. Each of the following pairs of words hides a number, based on which you can arrange them in ascending order. Pick the correct answer:  
 I. Cloth reel  
 J. Silent wonder  
 K. Good tone  
 L. Bronze rod
1. - L, K, J, I                2. I, J, K, L  
 3. K, L, J, I                4. K, J, I, L
13. एक  $12\text{ m} \times 4\text{ m}$  की आयाताकार छत चार मीटर लंबे पतले खम्भों पर टिकी है। पूर्व दिशा में  $45^\circ$  के कोण पर छत पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं जोकि धरातल पर आया बनाती हैं। आया का क्षेत्रफल क्या है?  
 1.  $24\text{ m}^2$                     2.  $36\text{ m}^2$   
 3.  $48\text{ m}^2$                     4.  $60\text{ m}^2$
13. A  $12\text{ m} \times 4\text{ m}$  rectangular roof is resting on four 4 m tall thin poles. Sunlight falls on the roof at an angle of  $45^\circ$  from the east, creating a shadow on the ground. What will be the area of the shadow?  
 1.  $24\text{ m}^2$                     2.  $36\text{ m}^2$   
 3.  $48\text{ m}^2$                     4.  $60\text{ m}^2$
14. एक बक्से की ऊँचाई ज्ञात कीजिये जिसका धरातल क्षेत्रफल  $24\text{ cm} \times 48\text{ cm}$  है तथा जिसमें अधिकतम 56 cm लंबी छड़ रखी जा सकती है।  
 1. 8 cm                        2. 32 cm  
 3. 37.5 cm                   4. 16 cm
14. Find the height of a box of base area  $24\text{ cm} \times 48\text{ cm}$ , in which the longest stick that can be kept is 56 cm long.  
 1. 8 cm                        2. 32 cm  
 3. 37.5 cm                   4. 16 cm
15. दिये गये क्रम के आधार पर लुप्त तत्व को ज्ञात कीजिये  
 A. ○—    B. ○—    C. —○  
 A. □      B. □      C. ?  
 1. □                            2. □  
 3. □                            4. □
15. Find the missing element based on the given pattern  
 A. ○—    B. ○—    C. —○  
 A. □      B. □      C. ?

1.

2.

1.  $\frac{a}{\pi}$   
3.  $a/\pi$ 2.  $\pi a$   
4.  $a/2\pi$ 

3.

4.


16. एक व्यक्ति स्थानिक समय 0100 बजे एक दूसरे देश की अपनी यात्रा आरंभ कर दूसरे देश पर स्थानिक समय 0900 बजे, उसी तारीख को पहुंचता है। वह अपनी वापसी यात्रा उसी रात्रि स्थानिक समय 2100 बजे शुरू कर अपने मूल स्थान पर समान यात्रा समय में पूरी करता है। यदि उसके प्रवासीय देश का समय काल उसके मूल स्थान के समय काल से 10 घंटे पीछे है तो व्यक्ति अपने मूल स्थान से कुल जितने समय बाहर था वह है

1. 48 घंटे                    2. 20 घंटे  
3. 25 घंटे                    4. 36 घंटे


16. A man starts his journey at 0100 Hrs local time to reach another country at 0900 Hrs local time on the same date. He starts a return journey on the same night at 2100 Hrs local time to his original place, taking the same time to travel back. If the time zone of his country of visit lags by 10 hours, the duration for which the man was away from his place is

1. 48 hours                    2. 20 hours  
3. 25 hours                    4. 36 hours

17. ABC एक लम्ब कोण त्रिभुज है जो एक अर्धवृत्त के अंदर अंतर्चित्रित है। भुजाओं BC तथा AC पर भी अर्धवृत्त बनाये जाते हैं। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल  $a$  है, तो छायित इंदुकों का कुल क्षेत्रफल क्या है?



17. ABC is a right angled triangle inscribed in a semicircle. Smaller semicircles are drawn on sides BC and AC. If the area of the triangle is  $a$ , what is the total area of the shaded lunes?



1.  $a$   
2.  $\pi a$   
3.  $a/\pi$   
4.  $a/2\pi$

18. एक चींटी अपने ही आमाप की एक दूसरी चींटी को उठा सकती है जबकि एक हाथी अपने ही आमाप के दूसरे हाथी को उठा नहीं सकता, क्योंकि

1. चींटी की मांसपेशियां हाथी की मांसपेशियों की तुलना में अधिक बलवान हैं।  
2. हाथी की तुलना में चींटी के आनुपातिकतः मोटे पैर होते हैं।  
3. आमाप के वर्ग के अनुपात में बल बढ़ता है जबकि आमाप के घन के अनुपात में भार बढ़ता है।  
4. चींटियां सहयोगित काम करते हैं जबकि हाथी व्यक्तिगत काम करते हैं।


18. An ant can lift another ant of its size whereas an elephant cannot lift another elephant of its size, because

1. ant muscle fibres are stronger than elephant muscle fibres.  
2. ant has proportionately thicker legs than elephant  
3. strength scales as the square of the size while weight scales as cube of the size  
4. ants work cooperatively, whereas elephants work as individuals

19. त्रिज्या  $R$  के एक क्षैतिज सिलिंडर पर एक आनत समतल विराम करता है। यदि समतल धरातल से  $30^\circ$  का कोण बनाता है, तो समतल का सिलिंडर पर स्पर्श बिंदु इस ऊँचाई पर है:
1.  $1.500 R$
  2.  $1.866 R$
  3.  $1.414 R$
  4.  $1.000 R$
19. An inclined plane rests against a horizontal cylinder of radius  $R$ . If the plane makes an angle of  $30^\circ$  with the ground, the point of contact of the plane with the cylinder is at a height of
1.  $1.500 R$
  2.  $1.866 R$
  3.  $1.414 R$
  4.  $1.000 R$
20. व्यास 140 मीटर के एक क्षेत्र में बनाये जा सकने वाले समांतर अनाच्छादित क्रिकेट पिचों की उच्चतम संख्या क्या है, यदि किसी भी पिच के केन्द्र से सीमा की दूरी न्यूनतम 60 मीटर हो?
1. 6
  2. 7
  3. 12
  4. 4
20. What is the maximum number of parallel, non-overlapping cricket pitches (length 24 m, width 3 m) that can be laid in a field of diameter 140 m, if the boundary is required to be at least 60 m from the centre of any pitch?
1. 6
  2. 7
  3. 12
  4. 4
- भाग/PART-'B'
21. द्विविम में दीर्घवृत्त  $x^2 + 4y^2 = 8$  पर एक कण चलता है। यदि किसी क्षण पर वह बिंदु  $(x, y) = (2, 1)$  पर है तथा उसकी गति का  $x$ -घटक 6 (उपयुक्त इकाईयों में) है, तो उसकी गति का  $y$ -घटक है:
1. -3
  2. -2
  3. 1
  4. 4
21. A particle moves in two dimensions on the ellipse  $x^2 + 4y^2 = 8$ . At a particular instant it is at the point  $(x, y) = (2, 1)$  and the  $x$ -component of its velocity is 6 (in suitable units). Then the  $y$ -component of its velocity is
1. -3
  2. -2
  3. 1
  4. 4
22. समाकल  $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{1+x^4}$  का मान है:
1.  $\frac{\pi}{\sqrt{2}}$
  2.  $\frac{\pi}{2}$
  3.  $\sqrt{2}\pi$
  4.  $2\pi$
22. The value of the integral  $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{1+x^4}$  is
1.  $\frac{\pi}{\sqrt{2}}$
  2.  $\frac{\pi}{2}$
  3.  $\sqrt{2}\pi$
  4.  $2\pi$
23. यदि द्विविम में एक गतिक तंत्र की लागांजी  $L = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 + m\dot{x}\dot{y}$  है, तब उसकी हैमिल्टनी है:
1.  $H = \frac{1}{m}p_x p_y + \frac{1}{2m}p_y^2$
  2.  $H = \frac{1}{m}p_x p_y + \frac{1}{2m}p_x^2$
  3.  $H = \frac{1}{m}p_x p_y - \frac{1}{2m}p_y^2$
  4.  $H = \frac{1}{m}p_x p_y - \frac{1}{2m}p_x^2$
23. If the Lagrangian of a dynamical system in two dimensions is  $L = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 + m\dot{x}\dot{y}$ , then its Hamiltonian is
1.  $H = \frac{1}{m}p_x p_y + \frac{1}{2m}p_y^2$
  2.  $H = \frac{1}{m}p_x p_y + \frac{1}{2m}p_x^2$
  3.  $H = \frac{1}{m}p_x p_y - \frac{1}{2m}p_y^2$
  4.  $H = \frac{1}{m}p_x p_y - \frac{1}{2m}p_x^2$
24. एकांक द्रव्यमान का एक कण  $xy$ -तल में इस प्रकार चलता है कि  $\dot{x}(t) = y(t)$  तथा  $\dot{y}(t) = -x(t)$  हैं। हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि वह एक संरक्षी बल है जो इस विभव से व्युत्पन्नित है:
1.  $\frac{1}{2}(x^2 + y^2)$
  2.  $\frac{1}{2}(x^2 - y^2)$
  3.  $x + y$
  4.  $x - y$
24. A particle of unit mass moves in the  $xy$ -plane in such a way that  $\dot{x}(t) = y(t)$  and  $\dot{y}(t) = -x(t)$ . We can conclude that it is in a conservative force-field which can be derived from the potential

1.  $\frac{1}{2}(x^2 + y^2)$   
 2.  $\frac{1}{2}(x^2 - y^2)$   
 3.  $x + y$   
 4.  $x - y$

25. जैसे कि निम्न चित्र में दर्शाया गया है, आवर्तकाल  $T$  युक्त एक आवर्ती फलन  $f(t)$  पर विचारें।




$t = \frac{1}{2}(2n-1)$  पर स्थित नोक, जहां  $n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$  हैं, बल  $\pm 1$  के डिरैक्टा फलन हैं। फूरिये विस्तरण

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n e^{2\pi i n t/T}$$

में आयाम  $a_n$  इनसे दिये जाते हैं:

1.  $(-1)^n$   
 2.  $\frac{1}{nn} \sin \frac{n\pi}{2}$   
 3.  $i \sin \frac{n\pi}{2}$   
 4.  $nn$

25. Consider the periodic function  $f(t)$  with time period  $T$  as shown in the figure below.



The spikes, located at  $t = \frac{1}{2}(2n-1)$ , where  $n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$ , are Dirac-delta functions of strength  $\pm 1$ . The amplitudes  $a_n$  in the Fourier expansion

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n e^{2\pi i n t/T}$$

are given by

1.  $(-1)^n$   
 2.  $\frac{1}{nn} \sin \frac{n\pi}{2}$   
 3.  $i \sin \frac{n\pi}{2}$   
 4.  $nn$

26. अवकल समीकरण  $\frac{d^2x}{dt^2} - 3\frac{dx}{dt} + 2x = 0$  पर विचारें। यदि  $t = 0$  पर  $x = 0$  तथा  $t = 1$  पर  $x = 1$  है, तो  $t = 2$  पर  $x$  का मान है:

1.  $e^2 + 1$   
 2.  $e^2 + e$   
 3.  $e + 2$   
 4.  $2e$

26. Consider the differential equation  $\frac{d^2x}{dt^2} - 3\frac{dx}{dt} + 2x = 0$ . If  $x = 0$  at  $t = 0$  and  $x = 1$  at  $t = 1$ , the value of  $x$  at  $t = 2$  is
1.  $e^2 + 1$   
 2.  $e^2 + e$   
 3.  $e + 2$   
 4.  $2e$

27.  $6t^3 + 3 \sin 4t$  का लाप्लास रूपांतरण है

1.  $\frac{36}{s^4} + \frac{12}{s^2+16}$   
 2.  $\frac{36}{s^4} + \frac{12}{s^2-16}$   
 3.  $\frac{18}{s^4} + \frac{12}{s^2-16}$   
 4.  $\frac{36}{s^3} + \frac{12}{s^2+16}$

27. The Laplace transform of  $6t^3 + 3 \sin 4t$  is

1.  $\frac{36}{s^4} + \frac{12}{s^2+16}$   
 2.  $\frac{36}{s^4} + \frac{12}{s^2-16}$   
 3.  $\frac{18}{s^4} + \frac{12}{s^2-16}$   
 4.  $\frac{36}{s^3} + \frac{12}{s^2+16}$

28. एक विमी विभव  $V(x) = \frac{\alpha}{3}x^3 + \frac{\beta}{4}x^4$ , जहां  $\alpha, \beta > 0$  हैं, में द्रव्यमान  $m$  का एक कण चलता है। साम्यावस्था बिंदुओं में से एक है  $x = 0$ । दूसरी साम्यावस्था बिंदु के आस-पास छोटे दोलनों की कोणिक बारंबारता है:

1.  $\frac{2\alpha}{\sqrt{3m\beta}}$   
 2.  $\frac{\alpha}{\sqrt{m\beta}}$   
 3.  $\frac{\alpha}{\sqrt{12m\beta}}$   
 4.  $\frac{\alpha}{\sqrt{24m\beta}}$

28. A particle of mass  $m$  moves in the one-dimensional potential  $V(x) = \frac{\alpha}{3}x^3 + \frac{\beta}{4}x^4$  where  $\alpha, \beta > 0$ . One of the equilibrium points is  $x = 0$ . The angular frequency of small oscillations about the other equilibrium point is

1.  $\frac{2\alpha}{\sqrt{3m\beta}}$   
 2.  $\frac{\alpha}{\sqrt{m\beta}}$   
 3.  $\frac{\alpha}{\sqrt{12m\beta}}$   
 4.  $\frac{\alpha}{\sqrt{24m\beta}}$

29. तीन जड़त्वीय निर्देश फ्रेमों, A, B तथा C पर विचारें। A से सापेक्ष B गति  $c/2$  के साथ चलता है, तथा B से सापेक्ष C गति  $c/10$  के साथ उसी दिशा में चलता है। A पर मापित C की गति है:

1.  $\frac{3c}{7}$   
 2.  $\frac{4c}{7}$   
 3.  $\frac{c}{7}$   
 4.  $\frac{\sqrt{3}c}{7}$

29. Consider three inertial frames of reference A, B and C. The frame B moves with a velocity  $c/2$  with respect to A, and C moves with a velocity  $c/10$  with respect to B in the same direction. The velocity of C as measured in A is

- |                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| 1. $\frac{3c}{7}$ | 2. $\frac{4c}{7}$        |
| 3. $\frac{c}{7}$  | 4. $\frac{\sqrt{3}c}{7}$ |

30. एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग धन z-दिशा में प्रगामी है। x-दिशा में उच्चतम विद्युत क्षेत्र है  $10 \text{ V/m}$ . प्रति इकाई क्षेत्रफल पर शक्ति एवं चुंबकीय प्रेरण  $B$  के सन्निकटित उच्चतम मान क्रमशः हैं:

1.  $3.3 \times 10^{-7} \text{ watts/m}^2$  तथा  $10 \text{ tesla}$
2.  $3.3 \times 10^{-7} \text{ watts/m}^2$  तथा  $3.3 \times 10^{-8} \text{ tesla}$
3.  $0.265 \text{ watts/m}^2$  तथा  $10 \text{ tesla}$
4.  $0.265 \text{ watts/m}^2$  तथा  $3.3 \times 10^{-8} \text{ tesla}$

30. A plane electromagnetic wave is travelling along the positive z-direction. The maximum electric field along the x-direction is  $10 \text{ V/m}$ . The approximate maximum values of the power per unit area and the magnetic induction  $B$ , respectively, are

1.  $3.3 \times 10^{-7} \text{ watts/m}^2$  and  $10 \text{ tesla}$
2.  $3.3 \times 10^{-7} \text{ watts/m}^2$  and  $3.3 \times 10^{-8} \text{ tesla}$
3.  $0.265 \text{ watts/m}^2$  and  $10 \text{ tesla}$
4.  $0.265 \text{ watts/m}^2$  and  $3.3 \times 10^{-8} \text{ tesla}$

31. धन z-दिशा में 1 tesla चुम्बकीय क्षेत्र में xy-तल पर गति  $300 \text{ m/s}$  के साथ एक प्रोटॉन एक वृत्तीय कक्षा में चलता है। जब धन y-दिशा में  $1 \text{ V/m}$  का एक विद्युत क्षेत्र लागू किया जाता है, वृत्तीय कक्षा का केन्द्र

1. अचल रहता है
2. ऋण x-दिशा में  $1 \text{ m/s}$  गति से चलता है
3. धन z-दिशा में  $1 \text{ m/s}$  गति से चलता है
4. धन x-दिशा में  $1 \text{ m/s}$  गति से चलता है

31. A proton moves with a speed of  $300 \text{ m/s}$  in a circular orbit in the  $xy$ -plane in a magnetic field 1 tesla along the positive z-direction. When an electric field of  $1 \text{ V/m}$

is applied along the positive y-direction, the centre of the circular orbit

1. remains stationary
2. moves at  $1 \text{ m/s}$  along the negative x-direction
3. moves at  $1 \text{ m/s}$  along the positive z-direction
4. moves at  $1 \text{ m/s}$  along the positive x-direction

32. एक विम में एक कण विभव  $V = \frac{1}{2}k(t)x^2$  पर चलता है, जहां  $k(t)$  एक समय-निर्भर प्राचल है। तो  $\frac{d}{dt}\langle V \rangle$ , विभव ऊर्जा के प्रत्याशित मान  $\langle V \rangle$  की परिवर्तन दर है:

1.  $\frac{1}{2} \frac{dk}{dt} \langle x^2 \rangle + \frac{k}{2m} \langle xp + px \rangle$
2.  $\frac{1}{2} \frac{dk}{dt} \langle x^2 \rangle + \frac{1}{2m} \langle p^2 \rangle$
3.  $\frac{k}{2m} \langle xp + px \rangle$
4.  $\frac{1}{2} \frac{dk}{dt} \langle x^2 \rangle$

32. A particle moves in one dimension in the potential  $V = \frac{1}{2}k(t)x^2$ , where  $k(t)$  is a time dependent parameter. Then  $\frac{d}{dt}\langle V \rangle$ , the rate of change of the expectation value  $\langle V \rangle$  of the potential energy, is


1.  $\frac{1}{2} \frac{dk}{dt} \langle x^2 \rangle + \frac{k}{2m} \langle xp + px \rangle$
2.  $\frac{1}{2} \frac{dk}{dt} \langle x^2 \rangle + \frac{1}{2m} \langle p^2 \rangle$
3.  $\frac{k}{2m} \langle xp + px \rangle$
4.  $\frac{1}{2} \frac{dk}{dt} \langle x^2 \rangle$

33. मानें कि  $yz$ -तल परावैद्युतांक  $\epsilon_{\text{left}}$  तथा  $\epsilon_{\text{right}}$  के दो माध्यमों के बीच का एक आवेशहीन सीमा की संरचना करता है जहां  $\epsilon_{\text{left}} : \epsilon_{\text{right}} = 1 : 2$  है। यदि दायें तरफ एकसमान विद्युत क्षेत्र है  $\vec{E}_{\text{left}} = c(\hat{i} + j + \hat{k})$  (जहां  $c$  अचर है), तो दायें तरफ विद्युत क्षेत्र  $\vec{E}_{\text{right}}$  है:


1.  $c(2\hat{i} + j + \hat{k})$
2.  $c(\hat{i} + 2j + 2\hat{k})$
3.  $c\left(\frac{1}{2}\hat{i} + j + \hat{k}\right)$
4.  $c\left(\hat{i} + \frac{1}{2}j + \frac{1}{2}\hat{k}\right)$

33. Suppose the  $yz$ -plane forms a chargeless boundary between two media of permittivities  $\epsilon_{\text{left}}$  and  $\epsilon_{\text{right}}$  where  $\epsilon_{\text{left}}:\epsilon_{\text{right}} = 1:2$ . If the uniform electric field on the left is  $\vec{E}_{\text{left}} = c(\hat{i} + \hat{j} + \hat{k})$  (where  $c$  is a constant), then the electric field on the right  $\vec{E}_{\text{right}}$  is
1.  $c(2\hat{i} + \hat{j} + \hat{k})$
  2.  $c(\hat{i} + 2\hat{j} + 2\hat{k})$
  3.  $c\left(\frac{1}{2}\hat{i} + \hat{j} + \hat{k}\right)$
  4.  $c\left(\hat{i} + \frac{1}{2}\hat{j} + \frac{1}{2}\hat{k}\right)$
34. विद्युत स्थैतिक विभव  $V$  तथा संदिश विभव  $\vec{A}$  के निम्न रूपांतरणों  $(V, \vec{A}) \rightarrow (V', \vec{A}')$  में कौन-सा प्रमाणी रूपांतरण है?
1.  $(V' = V + ax, \vec{A}' = \vec{A} + at\hat{k})$
  2.  $(V' = V + ax, \vec{A}' = \vec{A} - at\hat{k})$
  3.  $(V' = V + ax, \vec{A}' = \vec{A} + at\hat{i})$
  4.  $(V' = V + ax, \vec{A}' = \vec{A} - at\hat{i})$
34. Which of the following transformations  $(V, \vec{A}) \rightarrow (V', \vec{A}')$  of the electrostatic potential  $V$  and the vector potential  $\vec{A}$  is a gauge transformation?
1.  $(V' = V + ax, \vec{A}' = \vec{A} + at\hat{k})$
  2.  $(V' = V + ax, \vec{A}' = \vec{A} - at\hat{k})$
  3.  $(V' = V + ax, \vec{A}' = \vec{A} + at\hat{i})$
  4.  $(V' = V + ax, \vec{A}' = \vec{A} - at\hat{i})$
35. निर्देशांक निरूपण में एक विभी कण के तरंगफलन को  $\psi(x)$  से तथा संवेग निरूपण में  $\phi(p) = \int \psi(x)e^{-ipx/\hbar} dx$  से निर्दिष्ट किया जाता है। यदि  $\psi(x)$  पर संकारक  $\hat{T}$  की क्रिया  $\hat{T}\psi(x) = \psi(x+a)$  से दिया जाता है, जहां  $a$  अचर है, तो  $\hat{T}\phi(p)$  इससे दिया जाता है
1.  $-\frac{i}{\hbar}ap\phi(p)$
  2.  $e^{-iap/\hbar}\phi(p)$
  3.  $e^{+iap/\hbar}\phi(p)$
  4.  $\left(1 + \frac{i}{\hbar}ap\right)\phi(p)$
35. The wavefunction of a particle in one-dimension is denoted by  $\psi(x)$  in the coordinate representation and by  $\phi(p) = \int \psi(x)e^{-ipx/\hbar} dx$  in the momentum representation. If the action of an operator  $\hat{T}$  on  $\psi(x)$  is given by  $\hat{T}\psi(x) = \psi(x+a)$ , where  $a$  is a constant, then  $\hat{T}\phi(p)$  is given by
1.  $-\frac{i}{\hbar}ap\phi(p)$
  2.  $e^{-iap/\hbar}\phi(p)$
  3.  $e^{+iap/\hbar}\phi(p)$
  4.  $\left(1 + \frac{i}{\hbar}ap\right)\phi(p)$
36. पार्श्व  $L$ ,  $L$  तथा  $L/2$  युक्त एक त्रिविम आयतीय बक्से में स्थित एक कण के लिए प्रथम उत्तेजित अवस्था ऊर्जा  $E_1$  तथा आध्य अवस्था ऊर्जा  $E_0$  का अनुपात है:
1. 3:2
  2. 2:1
  3. 4:1
  4. 4:3
36. The ratio of the energy of the first excited state  $E_1$ , to that of the ground state  $E_0$ , of a particle in a three-dimensional rectangular box of sides  $L$ ,  $L$  and  $L/2$ , is
1. 3:2
  2. 2:1
  3. 4:1
  4. 4:3
37. यदि कोणीय संवेग संकारक  $\vec{L}$  के घटक  $L_i$  हैं तो संकारक  $\sum_{i=1,2,3} [[\vec{L}, L_i], L_i]$  इस समान है:
1.  $\vec{L}$
  2.  $2\vec{L}$
  3.  $3\vec{L}$
  4.  $-\vec{L}$
37. If  $L_i$  are the components of the angular momentum operator  $\vec{L}$ , then the operator  $\sum_{i=1,2,3} [[\vec{L}, L_i], L_i]$  equals
1.  $\vec{L}$
  2.  $2\vec{L}$
  3.  $3\vec{L}$
  4.  $-\vec{L}$
38. किसी तरल के द्रव और वाष्प की साम्यावस्था के लिये प्रतिबंध, सन्निकटित समीकरण  $\frac{dP}{dT} \approx \frac{Q_l}{T\nu_{\text{vap}}}$  (क्लासियस्-क्लैपेरॉन समीकरण) से दिया जाता है, जहां  $\nu_{\text{vap}}$  वाष्प अवस्था में प्रति कण का आयतन है, तथा  $Q_l$  गुप्त ऊर्जा जो अचर माना जा सकता है। यदि वाष्प आदर्श

गैस विधि का अनुकरण करता है, तो निम्न चित्रों में कौन-सा सही है?



38. The condition for the liquid and vapour phases of a fluid to be in equilibrium is given by the approximate equation  $\frac{dP}{dT} \approx \frac{Q_l}{T v_{\text{vap}}}$  (Clausius-Clayperon equation), where  $v_{\text{vap}}$  is the volume per particle in the vapour phase, and  $Q_l$  is the latent heat, which may be taken to be a constant. If the vapour obeys ideal gas law, which of the following plots is correct?



39. द्रव की श्यानता  $\eta$ , प्वाज़इ फार्मूला  $\eta = \frac{\pi P a^4}{8 l V}$  से दी जाती है। मानें कि  $l$  तथा  $V$  अत्यंत यथार्थतः मापे जा सकते हैं, परंतु  $P$  की वर्ग माध्य मूल त्रुटि 1% है तथा विज्ञा  $a$  की एक


स्वतंत्र वर्ग माध्य मूल त्रुटि 3% है। श्यानता की वर्ग माध्य मूल त्रुटि इसके निकटतम है:

- |         |         |
|---------|---------|
| 1. 2 %  | 2. 4 %  |
| 3. 12 % | 4. 13 % |


39. The viscosity  $\eta$  of a liquid is given by Poiseuille's formula  $\eta = \frac{\pi P a^4}{8 l V}$ . Assume that  $l$  and  $V$  can be measured very accurately, but the pressure  $P$  has an rms error of 1% and the radius  $a$  has an independent rms error of 3%. The rms error of the viscosity is closest to

- |         |         |
|---------|---------|
| 1. 2 %  | 2. 4 %  |
| 3. 12 % | 4. 13 % |


40. निम्न परिपथों में से कौन-सा एक नियंत्रित व्युत्क्रमणी जैसे काम करता है?




40. Which of the following circuits behaves as a controlled inverter?



3.



4.



41. द्रव्यमान  $m$  वाले  $N$  अन्योन्यक्रियाहीन चिरप्रतिष्ठित कणों के एक तंत्र को रूप  $V(r) = \alpha(x^2 + y^2)$  के एक द्विविमी हाँर्मानिक विभवाधीन किया जाता है, जहां  $\alpha$  एक धन अचर है। ताप  $T$  पर तंत्र का विहित विभाजन फलन है ( $\beta = \frac{1}{k_B T}$ ):

1.  $\left[ \left( \frac{\alpha}{2m} \right)^2 \frac{\pi}{\beta} \right]^N$
2.  $\left( \frac{2m\pi}{\alpha\beta} \right)^{2N}$
3.  $\left( \frac{\alpha\pi}{2m\beta} \right)^N$
4.  $\left( \frac{2m\pi^2}{\alpha\beta^2} \right)^N$

41. A system of  $N$  non-interacting classical particles, each of mass  $m$  is in a two-dimensional harmonic potential of the form  $V(r) = \alpha(x^2 + y^2)$  where  $\alpha$  is a positive constant. The canonical partition function of the system at temperature  $T$  is ( $\beta = \frac{1}{k_B T}$ ):

1.  $\left[ \left( \frac{\alpha}{2m} \right)^2 \frac{\pi}{\beta} \right]^N$
2.  $\left( \frac{2m\pi}{\alpha\beta} \right)^{2N}$
3.  $\left( \frac{\alpha\pi}{2m\beta} \right)^N$
4.  $\left( \frac{2m\pi^2}{\alpha\beta^2} \right)^N$

42.  $N$  विभेद्य कणों के एक तंत्र में, जिसमें हर कण ऊर्जा अवस्थाओं 0 तथा  $\epsilon$  दोनों में से एक में हो सकता है। यदि कुल ऊर्जा  $n\epsilon$  है जहां  $n$  एक पूर्णांक है तो तंत्र का एंट्रोपी इसके अनुपात में है:

1.  $N \ln n$
2.  $n \ln N$
3.  $\ln \left( \frac{N!}{n!(N-n)!} \right)$
4.  $\ln \left( \frac{N!}{n!(N-n)!} \right)$

42. A system of  $N$  distinguishable particles, each of which can be in one of the two energy levels 0 and  $\epsilon$ , has a total energy

$n\epsilon$ , where  $n$  is an integer. The entropy of the system is proportional to

- |                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 1. $N \ln n$                          | 2. $n \ln N$                                |
| 3. $\ln \left( \frac{N!}{n!} \right)$ | 4. $\ln \left( \frac{N!}{n!(N-n)!} \right)$ |


43. एक द्वि-अवस्था तंत्र में एक कण की अवस्था 1 से अवस्था 2 में संक्रमण की गति है  $t_{12}$ . तथा अवस्था 2 से अवस्था 1 में संक्रमण की गति  $t_{21}$  है। स्थायी दशा में, कण को अवस्था 1 में पाने की प्रायिकता है:

- |   |  |
|---|--|
| 1. $\frac{t_{21}}{t_{12}+t_{21}}$       | 2. $\frac{t_{12}}{t_{12}+t_{21}}$        |
| 3. $\frac{t_{12}t_{21}}{t_{12}+t_{21}}$ | 4. $\frac{t_{12}-t_{21}}{t_{12}+t_{21}}$ |

43. In a two-state system, the transition rate of a particle from state 1 to state 2 is  $t_{12}$ , and the transition rate from state 2 to state 1 is  $t_{21}$ . In the steady state, the probability of finding the particle in state 1 is


- |   |  |
|---|--|
| 1. $\frac{t_{21}}{t_{12}+t_{21}}$       | 2. $\frac{t_{12}}{t_{12}+t_{21}}$        |
| 3. $\frac{t_{12}t_{21}}{t_{12}+t_{21}}$ | 4. $\frac{t_{12}-t_{21}}{t_{12}+t_{21}}$ |

44. निम्न चित्रों (a) तथा (b) में दर्शाये गये परिपथों पर विचारें:



यदि चित्रों (a) तथा (b) में ट्रांजिस्टरों की धारालब्धि ( $\beta_{dc}$ ) क्रमशः 100 तथा 10 हैं, तो वे

1. क्रमशः सक्रिय एवं संतृप्त क्षेत्र पर काम करते हैं
2. क्रमशः संतृप्त एवं सक्रिय क्षेत्र पर काम करते हैं

3. दोनों संतुप्त क्षेत्र में काम करते हैं  
 4. दोनों सक्रिय क्षेत्र में काम करते हैं
44. Consider the circuits shown in Figures (a) and (b) below.
- 
- If the transistors in Figures (a) and (b) have current gain ( $\beta_{dc}$ ) of 100 and 10 respectively, then they operate in the
1. active region and saturation region respectively
  2. saturation region and active region respectively
  3. saturation region in both cases
  4. active region in both cases
45. ताप  $T$  में रहते एक नैज-अर्धचालक के लिए इलेक्ट्रोनों  $n$  तथा विवरों  $p$  की सांदर्ताओं को  $n = p = AT^{3/2} \exp\left(-\frac{E_g}{2k_B T}\right)$  द्वारा अभिव्यक्त किया जा सकता है, जहां  $E_g$  बैंड-गैप तथा  $A$  अचर हैं। यदि दोनों प्रकार के वाहकों की गतिशीलतायें  $T^{-3/2}$  के अनुपात में हैं, तो चालकता का लॉग,  $T^{-1}$  का एक ऐंगिक फलन है, इस प्रवणता के साथ:
1.  $E_g / (2k_B)$
  2.  $E_g / k_B$
  3.  $-E_g / (2k_B)$
  4.  $-E_g / k_B$
45. The concentration of electrons,  $n$ , and holes,  $p$ , for an intrinsic semiconductor at a temperature  $T$  can be expressed as  $n = p = AT^{3/2} \exp\left(-\frac{E_g}{2k_B T}\right)$ , where  $E_g$  is the band gap and  $A$  is a constant. If the mobility of both types of carriers is proportional to  $T^{-3/2}$ , then the log of the conductivity is a linear function of  $T^{-1}$ , with slope
1.  $E_g / (2k_B)$
  2.  $E_g / k_B$
  3.  $-E_g / (2k_B)$
  4.  $-E_g / k_B$

### भाग/PART-'C'

46. प्रारंभिक प्रतिबंध  $x = 0$  पर  $y = 2$  के साथ

अवकल समीकरण  $\frac{dy}{dx} = x^2 - y$  पर विचारें।

मानें कि  $y_{(1)}$  तथा  $y_{(1/2)}$   $x = 1$  पर औयलर अग्र कलन-विधि से, पग आमाप क्रमशः 1 तथा  $\frac{1}{2}$  के साथ पाये गये हल हैं।

$(y_{(1)} - y_{(1/2)})/y_{(1/2)}$  का मान है

- |           |         |
|-----------|---------|
| 1. $-1/2$ | 2. $-1$ |
| 3. $1/2$  | 4. 1    |

46. Consider the differential equation

$\frac{dy}{dx} = x^2 - y$  with the initial condition  $y = 2$  at  $x = 0$ . Let  $y_{(1)}$  and  $y_{(1/2)}$  be the solutions at  $x = 1$  obtained using Euler's forward algorithm with step size 1 and  $\frac{1}{2}$  respectively.

The value of  $(y_{(1)} - y_{(1/2)})/y_{(1/2)}$  is

- |           |         |
|-----------|---------|
| 1. $-1/2$ | 2. $-1$ |
| 3. $1/2$  | 4. 1    |

47. मानें कि  $q$  तथा  $p$  किसी गतिक तंत्र के विहित निर्देशांक तथा संवेग हैं। निम्न रूपांतरणों में से कौन-सा विहित है?

A:  $Q_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} q^2$  तथा  $P_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} p^2$

B:  $Q_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} (p + q)$  तथा  $P_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} (p - q)$

1. न तो A और न B
2. A तथा B दोनों
3. केवल A
4. केवल B

47. Let  $q$  and  $p$  be the canonical coordinate and momentum of a dynamical system. Which of the following transformations is canonical?


A:  $Q_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} q^2$  and  $P_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} p^2$

B:  $Q_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} (p + q)$  and  $P_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} (p - q)$


1. neither A nor B
2. both A and B
3. only A
4. only B

48. एक विमी विभव  $V(x) = -\frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{4}x^4$  में गतिशील किसी कण की अवस्था समष्टि प्रपथों (अर्थात् अचर ऊर्जा के कांटूर) का विधिवत प्रतिनिधित्व निम्न चित्रों में कौन-सा करता है?


1.




2.



3.




4.




48. Which of the following figures is a schematic representation of the phase space trajectories (i.e., contours of constant energy) of a particle moving in a one-dimensional potential  $V(x) = -\frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{4}x^4$ ?


$$V(x) = -\frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{4}x^4$$




2.



3.



4.



49. आवेश-मुक्त प्रदेश  $z > 0$  में विद्युतीय तथा चुंबकीय क्षेत्र

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = E_0 e^{-k_1 z} \cos(k_2 x - \omega t) \hat{j}$$

$$\vec{B}(\vec{r}, t) = \frac{E_0}{\omega} e^{-k_1 z} [k_1 \sin(k_2 x - \omega t) \hat{i} + k_2 \cos(k_2 x - \omega t) \hat{k}]$$

से दिये जाते हैं, जहाँ  $\omega$ ,  $k_1$  तथा  $k_2$  धन अचर हैं।  $x$ -दिशा में माध्य ऊर्जा प्रवाह है:

1.  $\frac{E_0^2 k_2}{2\mu_0 \omega} e^{-2k_1 z}$
2.  $\frac{E_0^2 k_2}{\mu_0 \omega} e^{-2k_1 z}$
3.  $\frac{E_0^2 k_1}{2\mu_0 \omega} e^{-2k_1 z}$
4.  $\frac{1}{2} c \epsilon_0 E_0^2 e^{-2k_1 z}$

49. The electric and magnetic fields in the charge free region  $z > 0$  are given by

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = \frac{E_0}{\omega} e^{-k_1 z} \cos(k_2 x - \omega t) \hat{j}$$

$$\vec{B}(\vec{r}, t) = \frac{E_0}{\omega} e^{-k_1 z} [k_1 \sin(k_2 x - \omega t) \hat{i} + k_2 \cos(k_2 x - \omega t) \hat{k}]$$

where  $\omega$ ,  $k_1$  and  $k_2$  are positive constants. The average energy flow in the  $x$ -direction is

1.  $\frac{E_0^2 k_2}{2\mu_0 \omega} e^{-2k_1 z}$
2.  $\frac{E_0^2 k_2}{\mu_0 \omega} e^{-2k_1 z}$
3.  $\frac{E_0^2 k_1}{2\mu_0 \omega} e^{-2k_1 z}$
4.  $\frac{1}{2} c \epsilon_0 E_0^2 e^{-2k_1 z}$

50. त्रिज्या 1 cm तथा प्रतिरोध 1 Ω के एक वृत्ताकार तार पाश  $xy$ -तल में पड़ा है। धन  $z$ -दिशा में एक एकसमान चुंबकीय क्षेत्र जिसका मान 1 s में क्षेत्र बल 10 tesla से 9 tesla तक कम किया जाता है। तार की किसी भी बिंदु से परित आवेश है लगभग

1.  $3.1 \times 10^{-4}$  coulomb
2.  $3.4 \times 10^{-4}$  coulomb
3.  $4.2 \times 10^{-4}$  coulomb
4.  $5.2 \times 10^{-4}$  coulomb

50. A uniform magnetic field in the positive  $z$ -direction passes through a circular wire loop of radius 1 cm and resistance 1 Ω lying in the  $xy$ -plane. The field strength is reduced from 10 tesla to 9 tesla in 1 s. The charge transferred across any point in the wire is approximately

1.  $3.1 \times 10^{-4}$  coulomb
2.  $3.4 \times 10^{-4}$  coulomb
3.  $4.2 \times 10^{-4}$  coulomb
4.  $5.2 \times 10^{-4}$  coulomb

51. तीन वास्तविक चरों  $a$ ,  $b$  तथा  $c$  में से हर एक अंतराल  $[0, 1]$  में एक एकसमान प्रायिकता बंटन से यादचिकत: चुने गये हैं।  $a + b > 2c$  होने की प्रायिकता है:

1.  $\frac{3}{4}$
2.  $\frac{2}{3}$
3.  $\frac{1}{2}$
4.  $\frac{1}{4}$

51. Three real variables  $a$ ,  $b$  and  $c$  are each randomly chosen from a uniform probability distribution in the interval  $[0, 1]$ . The probability that  $a + b > 2c$  is

- |                  |                  |
|------------------|------------------|
| 1. $\frac{3}{4}$ | 2. $\frac{2}{3}$ |
| 3. $\frac{1}{2}$ | 4. $\frac{1}{4}$ |

52. द्विकोटि प्रदिश  $x_i x_j$ , जहां  $x_i$  त्रिविम में स्थिति-सदिश के कार्तीय निर्देशांक हैं, के 6 स्वतंत्र तत्व हैं। घूर्णन के दौरान, ये 6 तत्व, अलघुकरणीय समुच्चयों में अपघटित होते हैं (अर्थात्, हर समुच्चय के तत्व, उसी समुच्चय के तत्वों के ऐंगिक संयोजनों में ही रूपांतरित होते हैं) जिसमें

1. 4 तथा 2 तत्व होते हैं
2. 5 तथा 1 तत्व होते हैं
3. 3, 2 तथा 1 तत्व होते हैं
4. 4, 1 तथा 1 तत्व होते हैं

52. The rank-2 tensor  $x_i x_j$ , where  $x_i$  are the Cartesian coordinates of the position vector in three dimensions, has 6 independent elements. Under rotation, these 6 elements decompose into irreducible sets (that is, the elements of each set transform only into linear combinations of elements in that set) containing

1. 4 and 2 elements
2. 5 and 1 elements
3. 3, 2 and 1 elements
4. 4, 1 and 1 elements

53. मानें कि  $f(x, t)$  एक-विम तरंग समीकरण  $\frac{\partial^2 f}{\partial t^2} = v^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$  का एक हल है। यदि  $t = 0$  पर सभी  $x$  के लिए  $f(x, 0) = e^{-x^2}$  तथा  $\frac{\partial f}{\partial t}(x, 0) = 0$  हैं, तो अविष्य के सभी समय  $t > 0$  के लिए  $f(x, t)$  का वर्णन इससे होता है:

1.  $e^{-(x^2 - v^2 t^2)}$
2.  $e^{-(x-vt)^2}$
3.  $\frac{1}{4} e^{-(x-vt)^2} + \frac{3}{4} e^{-(x+vt)^2}$
4.  $\frac{1}{2} [e^{-(x-vt)^2} + e^{-(x+vt)^2}]$

53. Let  $f(x, t)$  be a solution of the wave equation  $\frac{\partial^2 f}{\partial t^2} = v^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$  in 1-dimension. If at  $t = 0$ ,  $f(x, 0) = e^{-x^2}$  and  $\frac{\partial f}{\partial t}(x, 0) = 0$  for all  $x$ , then  $f(x, t)$  for all future times  $t > 0$  is described by

1.  $e^{-(x^2 - v^2 t^2)}$
2.  $e^{-(x-vt)^2}$
3.  $\frac{1}{4}e^{-(x-vt)^2} + \frac{3}{4}e^{-(x+vt)^2}$
4.  $\frac{1}{2}[e^{-(x-vt)^2} + e^{-(x+vt)^2}]$

54. किसी लक्ष्य से प्रकीर्णन के लिए अवकल परिक्षेत्र  $\frac{d\sigma}{d\Omega}(\theta, \varphi) = a^2 + b^2 \cos^2 \theta$  से दिया जाता है। यदि अगमनी कणों का फ्लक्स  $N$  है तो प्रति एकक समय पर प्रकीर्णत कणों की संख्या है:

1.  $\frac{4\pi}{3}N(a^2 + b^2)$
2.  $4\pi N\left(a^2 + \frac{1}{6}b^2\right)$
3.  $4\pi N\left(\frac{1}{2}a^2 + \frac{1}{3}b^2\right)$
4.  $4\pi N\left(a^2 + \frac{1}{3}b^2\right)$

54. The differential cross-section for scattering by a target is given by  $\frac{d\sigma}{d\Omega}(\theta, \varphi) = a^2 + b^2 \cos^2 \theta$ .

If  $N$  is the flux of the incoming particles, the number of particles scattered per unit time is

1.  $\frac{4\pi}{3}N(a^2 + b^2)$
2.  $4\pi N\left(a^2 + \frac{1}{6}b^2\right)$
3.  $4\pi N\left(\frac{1}{2}a^2 + \frac{1}{3}b^2\right)$
4.  $4\pi N\left(a^2 + \frac{1}{3}b^2\right)$

55. अनुप्रस्थ परिमाण  $2 \text{ m} \times 1 \text{ m}$  युक्त एक आयतीय तरंग पथक कोणीय बारंबारता  $\omega = 10^9 \text{ rad/s}$  से चालित है। इस तरंग पथक में कौनसे अनुप्रस्थ विध्युत मोड़ (TE) का प्रसारण होगा?

1.  $\text{TE}_{10}, \text{TE}_{01}$  और  $\text{TE}_{20}$
2.  $\text{TE}_{10}, \text{TE}_{11}$  और  $\text{TE}_{20}$
3.  $\text{TE}_{01}, \text{TE}_{10}$  और  $\text{TE}_{11}$
4.  $\text{TE}_{01}, \text{TE}_{10}$  और  $\text{TE}_{22}$

55. Consider a rectangular wave guide with transverse dimensions  $2 \text{ m} \times 1 \text{ m}$  driven with an angular frequency  $\omega = 10^9 \text{ rad/s}$ . Which transverse electric (TE) modes will propagate in this wave guide?

1.  $\text{TE}_{10}, \text{TE}_{01}$  and  $\text{TE}_{20}$
2.  $\text{TE}_{10}, \text{TE}_{11}$  and  $\text{TE}_{20}$
3.  $\text{TE}_{01}, \text{TE}_{10}$  and  $\text{TE}_{11}$
4.  $\text{TE}_{01}, \text{TE}_{10}$  and  $\text{TE}_{22}$

56. दैर्घ्य  $L$  के एक छड़ पर कुल आवेश  $Q$  एकसमानतः बंटित है। यदि इसका प्रेक्षण इसके समांतर गति  $v$  से गतिशील एक फ्रेम से किया जाता है, तो (गतिशील प्रेक्षक द्वारा मापा गया) प्रति एकक दैर्घ्य का आवेश है:

1.  $\frac{Q}{L}\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)$
2.  $\frac{Q}{L}\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$
3.  $\frac{Q}{L\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$
4.  $\frac{Q}{L\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)}$

56. A rod of length  $L$  carries a total charge  $Q$  distributed uniformly. If this is observed in a frame moving with a speed  $v$  along the rod, the charge per unit length (as measured by the moving observer) is

1.  $\frac{Q}{L}\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)$
2.  $\frac{Q}{L}\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$
3.  $\frac{Q}{L\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$
4.  $\frac{Q}{L\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)}$

57. मुक्त इलेक्ट्रोन के लिए डिरैक हैमिल्टनी  $H = c\vec{\alpha} \cdot \vec{p} + \beta mc^2$  चिरप्रतिष्ठित संबंध  $E^2 = p^2 c^2 + m^2 c^4$  से संगत है। एक विध्युत चुंबकीय विभव  $(\phi, \vec{A})$  में आवेश  $q$  के कण के लिए चिरप्रतिष्ठित ऊर्जा-संवेग संबंध है  $(E - q\phi)^2 = c^2(\vec{p} - \frac{q}{c}\vec{A})^2 + m^2 c^4$ । अतः एक विध्युत चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रोन के लिए डिरैक हैमिल्टनी है:


1.  $c\vec{\alpha} \cdot \vec{p} + \frac{e}{c}\vec{A} \cdot \vec{A} + \beta mc^2 - e\phi$
2.  $c\vec{\alpha} \cdot (\vec{p} + \frac{e}{c}\vec{A}) + \beta mc^2 + e\phi$
3.  $c(\vec{\alpha} \cdot \vec{p} + e\phi + \frac{e}{c}|\vec{A}|) + \beta mc^2$
4.  $c\vec{\alpha} \cdot (\vec{p} + \frac{e}{c}\vec{A}) + \beta mc^2 - e\phi$

57. The Dirac Hamiltonian  $H = c\vec{\alpha} \cdot \vec{p} + \beta mc^2$  for a free electron corresponds to the classical relation  $E^2 = p^2 c^2 + m^2 c^4$ .

The classical energy-momentum relation of a particle of charge  $q$  in a electromagnetic potential  $(\phi, \vec{A})$  is  $(E - q\phi)^2 = c^2(\vec{p} - \frac{e}{c}\vec{A})^2 + m^2c^4$ . Therefore, the Dirac Hamiltonian for an electron in an electromagnetic field is


1.  $c\vec{a} \cdot \vec{p} + \frac{e}{c}\vec{A} \cdot \vec{A} + \beta mc^2 - e\phi$
2.  $c\vec{a} \cdot (\vec{p} + \frac{e}{c}\vec{A}) + \beta mc^2 + e\phi$
3.  $c(\vec{a} \cdot \vec{p} + e\phi + \frac{e}{c}|\vec{A}|) + \beta mc^2$
4.  $c\vec{a} \cdot (\vec{p} + \frac{e}{c}\vec{A}) + \beta mc^2 - e\phi$

58. निम्न दिये गये परिपथ में,  $25^\circ\text{C}$  पर थर्मिस्टर का प्रतिरोध  $3 \text{ k}\Omega$  है। ऊष्मण पर उसका प्रतिरोध प्रति  $^\circ\text{C}$   $150 \Omega$  कम होता है।  $30^\circ\text{C}$  पर परिपथ का निर्गम वोल्टेज है:



1.  $-3.75 \text{ V}$
2.  $-2.25 \text{ V}$
3.  $2.25 \text{ V}$
4.  $3.75 \text{ V}$

58. In the circuit given below, the thermistor has a resistance  $3 \text{ k}\Omega$  at  $25^\circ\text{C}$ . Its resistance decreases by  $150 \Omega$  per  $^\circ\text{C}$  upon heating. The output voltage of the circuit at  $30^\circ\text{C}$  is



1.  $-3.75 \text{ V}$
2.  $-2.25 \text{ V}$
3.  $2.25 \text{ V}$
4.  $3.75 \text{ V}$

59.  $d$ -विम में एक आदर्शी बोस गैस परिक्षेपण संबंध  $\epsilon(\vec{k}) = Ak^s$ , जहाँ  $A$  तथा  $s$  अचर हैं, का अनुकरण करता है। बोस-आईन्सटाइन संघनन घटने के लिए उत्तेजित अवस्थाओं का निवेशन

$$N_e = c \int_0^{\infty} \frac{\epsilon^{(d-s)/s}}{e^{\beta(\epsilon-\mu)} - 1} d\epsilon$$

जहाँ  $c$  एक अचर है,  $\mu = 0$  के लिए भी परिमित रहना चाहिये। यह हो सकता है जब

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1. $\frac{d}{s} < \frac{1}{4}$ | 2. $\frac{1}{4} < \frac{d}{s} < \frac{1}{2}$ |
| 3. $\frac{d}{s} > 1$           | 4. $\frac{1}{2} < \frac{d}{s} < 1$           |

59. An ideal Bose gas in  $d$ -dimensions obeys the dispersion relation  $\epsilon(\vec{k}) = Ak^s$ , where  $A$  and  $s$  are constants. For Bose-Einstein condensation to occur, the occupancy of excited states

$$N_e = c \int_0^{\infty} \frac{\epsilon^{(d-s)/s}}{e^{\beta(\epsilon-\mu)} - 1} d\epsilon$$

where  $c$  is a constant, should remain finite even for  $\mu = 0$ . This can happen if

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1. $\frac{d}{s} < \frac{1}{4}$ | 2. $\frac{1}{4} < \frac{d}{s} < \frac{1}{2}$ |
| 3. $\frac{d}{s} > 1$           | 4. $\frac{1}{2} < \frac{d}{s} < 1$           |

60. समय  $t = 0$  पर, एक विम में अधिक संख्या  $N$  के ब्राउनी कण उद्गम से विसरण प्रारंभ करते हैं। विसरण गुणांक है  $D$ । दूरी  $L$  पर स्थित एक बिंदु से प्रति एकक समय पारित कणों की संख्या  $L$  तथा समय  $t$  पर इस प्रकार निर्भर है:

1.  $\frac{N}{\sqrt{4\pi Dt}} e^{-L^2/(4Dt)}$
2.  $\frac{NL}{\sqrt{4\pi Dt}} e^{-4Dt/L^2}$
3.  $\frac{N}{\sqrt{16\pi Dt^3}} e^{-L^2/(4Dt)}$
4.  $Ne^{-4Dt/L^2}$

60. A large number  $N$  of Brownian particles in one dimension start their diffusive motion from the origin at time  $t = 0$ . The diffusion coefficient is  $D$ . The number of particles crossing a point at a distance  $L$  from the origin, per unit time, depends on  $L$  and time  $t$  as

1.  $\frac{N}{\sqrt{4\pi Dt}} e^{-L^2/(4Dt)}$
2.  $\frac{NL}{\sqrt{4\pi Dt}} e^{-4Dt/L^2}$
3.  $\frac{N}{\sqrt{16\pi Dt^3}} e^{-L^2/(4Dt)}$
4.  $Ne^{-4Dt/L^2}$

61. द्रव्यमान  $m$  का एक कण विभव  $V = \frac{1}{2}m\omega^2x^2$  में है, जहाँ  $\omega$  एक अचर है। मानें कि  $\hat{a} = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} \left( \hat{x} + \frac{i\hat{p}}{m\omega} \right)$ । हार्डजैनबर्ग चित्र में  $\frac{d\hat{a}}{dt}$  इससे दिया जाता है:

- |                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1. $\omega\hat{a}$         | 2. $-i\omega\hat{a}$        |
| 3. $\omega\hat{a}^\dagger$ | 4. $i\omega\hat{a}^\dagger$ |

61. A particle of mass  $m$  is in a potential  $V = \frac{1}{2}m\omega^2x^2$ , where  $\omega$  is a constant. Let

$\hat{a} = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} \left( \hat{x} + \frac{i\hat{p}}{m\omega} \right)$ . In the Heisenberg picture  $\frac{d\hat{a}}{dt}$  is given by

- |                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1. $\omega\hat{a}$         | 2. $-i\omega\hat{a}$        |
| 3. $\omega\hat{a}^\dagger$ | 4. $i\omega\hat{a}^\dagger$ |

62. एक प्रतिकर्षी गोलीय विभव

$$V(r) = \begin{cases} V_0 & \text{for } r < a \\ 0 & \text{for } r \geq a \end{cases}$$

जहाँ  $V_0$  तथा  $a$  धन अचर हैं, द्वारा ऊर्जा  $E$  के एक कण का प्रकीर्णन होता है। अल्प ऊर्जा सीमांत में, कुल प्रकीर्णन परिक्षेत्र है  $\sigma = 4\pi a^2 \left( \frac{1}{ka} \tanh ka - 1 \right)^2$ , जहाँ  $k^2 = \frac{2m}{\hbar^2} (V_0 - E) > 0$ । सीमांत  $V_0 \rightarrow \infty$  में  $\sigma$ , तथा त्रिज्या  $a$  के एक गोल से विचरप्रतिष्ठित प्रकीर्णन परिक्षेत्र का अनुपात है:

- |      |        |
|------|--------|
| 1. 4 | 2. 3   |
| 3. 1 | 4. 1/2 |

62. A particle of energy  $E$  scatters off a repulsive spherical potential

$$V(r) = \begin{cases} V_0 & \text{for } r < a \\ 0 & \text{for } r \geq a \end{cases}$$

where  $V_0$  and  $a$  are positive constants. In the low energy limit, the total scattering cross-section is  $\sigma = 4\pi a^2 \left( \frac{1}{ka} \tanh ka - 1 \right)^2$ , where  $k^2 = \frac{2m}{\hbar^2} (V_0 - E) > 0$ . In the limit  $V_0 \rightarrow \infty$  the ratio of  $\sigma$  to the classical scattering cross-section off a sphere of radius  $a$  is

- |      |        |
|------|--------|
| 1. 4 | 2. 3   |
| 3. 1 | 4. 1/2 |

63. तीन आईसिंग प्रचक्रणों एक त्रिकोण के शीर्षों में स्थित हैं। हर दो प्रचक्रणों के बीच बल  $J$  की लोहचुंबकीय आईसिंग अन्योन्यक्रिया लागु है। ताप  $T$  पर तंत्र का विभाजन फलन इससे दिया जाता है ( $\beta = \frac{1}{k_B T}$ ):

1.  $2e^{3\beta J} + 6e^{-\beta J}$
2.  $2e^{-3\beta J} + 6e^{\beta J}$
3.  $2e^{3\beta J} + 6e^{-3\beta J} + 3e^{\beta J} + 3e^{-\beta J}$
4.  $(2 \cosh \beta J)^3$

63. Consider three Ising spins at the vertices of a triangle which interact with each other with a ferromagnetic Ising interaction of strength  $J$ . The partition function of the system at temperature  $T$  is given by ( $\beta = \frac{1}{k_B T}$ ):

1.  $2e^{3\beta J} + 6e^{-\beta J}$
2.  $2e^{-3\beta J} + 6e^{\beta J}$
3.  $2e^{3\beta J} + 6e^{-3\beta J} + 3e^{\beta J} + 3e^{-\beta J}$
4.  $(2 \cosh \beta J)^3$

64. किसी द्विविम वास्तविक सदिश समष्टि के लिए

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \text{ तथा } \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ \sqrt{2} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -\sqrt{2} \end{pmatrix} \right\}$$

ये दो भिन्न लांबिक आधार सदिश दिये जाते हैं। इन आधारों में किसी ऐकिक संकारक का आव्यूह प्रतिनिधित्व एक ऐकिक रूपांतरण द्वारा संबंधित है। ऐकिक आव्यूह का रूप इस प्रकार चुना जा सकता है:

- |   |  |
|---|--|
| 1. $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$                    | 2. $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$                    |
| 3. $\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ | 4. $\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ |


64. Two different sets of orthogonal basis vectors

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \text{ and } \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ \sqrt{2} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -\sqrt{2} \end{pmatrix} \right\}$$





are given for a two-dimensional real vector space. The matrix representation of a linear operator  $\hat{A}$  in these bases are related by a unitary transformation. The unitary matrix may be chosen to be

- |   |  |
|---|--|
| 1. $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$                    | 2. $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$                    |
| 3. $\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ | 4. $\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ |


65. निम्न चित्र में दर्शाये गये परिपथ एवं निवेश ज्यावक्रीय तरंगरूप के लिए सही निर्गम तरंगरूप क्या है?







(सभी चित्रों में समय आमाप समान हैं।)




65. For the circuit and the input sinusoidal waveform shown in the figures below, which is the correct waveform at the output?



(The time scales in all the plots are the same.)




66. निम्न दिये गये तर्क परिपथ के लिए, दशमलव गणन अनुक्रम एवं A B C D से संगत परिपथ का माइयूलस है:



1.  $8 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow 1 \rightarrow 9 \rightarrow 5 \pmod{6}$
2.  $8 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow 9 \rightarrow 5 \rightarrow 3 \pmod{6}$
3.  $2 \rightarrow 5 \rightarrow 9 \rightarrow 1 \rightarrow 3 \pmod{5}$
4.  $8 \rightarrow 5 \rightarrow 1 \rightarrow 3 \rightarrow 7 \pmod{5}$

66. For the logic circuit given below, the decimal count sequence and the modulus of the circuit corresponding to A B C D are



1.  $8 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow 1 \rightarrow 9 \rightarrow 5 \pmod{6}$
2.  $8 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow 9 \rightarrow 5 \rightarrow 3 \pmod{6}$
3.  $2 \rightarrow 5 \rightarrow 9 \rightarrow 1 \rightarrow 3 \pmod{5}$
4.  $8 \rightarrow 5 \rightarrow 1 \rightarrow 3 \rightarrow 7 \pmod{5}$

67. जालक अचर  $a$  वाले साधारण घन जालक के (111) तल से तरंगदैर्घ्य  $\lambda = a$  का X-किरण परावर्तित होता है। संगत ब्रैग कोण (रेडियन में) है:

- |            |            |
|------------|------------|
| 1. $\pi/6$ | 2. $\pi/4$ |
| 3. $\pi/3$ | 4. $\pi/8$ |

67. X-ray of wavelength  $\lambda = a$  is reflected from the (111) plane of a simple cubic lattice. If the lattice constant is  $a$ , the corresponding Bragg angle (in radian) is

- |            |            |
|------------|------------|
| 1. $\pi/6$ | 2. $\pi/4$ |
| 3. $\pi/3$ | 4. $\pi/8$ |

68. ताप 4 K तथा 8 K के लिए अतिचालक के क्रांतिक चुंबकीय क्षेत्र हैं क्रमशः 11 mA/m तथा 5.5 mA/m। संक्रमण ताप है लगभग

- |           |           |
|-----------|-----------|
| 1. 8.4 K  | 2. 10.6 K |
| 3. 12.9 K | 4. 15.0 K |

68. The critical magnetic fields of a superconductor at temperatures 4 K and 8 K are 11 mA/m and 5.5 mA/m respectively. The transition temperature is approximately

- |           |           |
|-----------|-----------|
| 1. 8.4 K  | 2. 10.6 K |
| 3. 12.9 K | 4. 15.0 K |

69. द्विपरमाणुक अणु की कंपनिक अवस्थायें ऊर्जा  $E_v = \hbar\omega \left(v + \frac{1}{2}\right)$  तथा घूर्णनिक अवस्थायें ऊर्जा  $E_j = Bj(j + 1)$  के साथ होती हैं, जहाँ  $v$  तथा  $j$  अक्षण पूर्णांक हैं। उन संक्रमणों पर विचारे जिनमें प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्थायें  $v \leq 1$  तथा  $j \leq 2$  से प्रतिबंधित हैं और चयन विधियाँ  $\Delta v = \pm 1$  तथा  $\Delta j = \pm 1$  के अधीन हैं। तो संक्रमण से अनुमत उच्चतम ऊर्जा है:

- |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. $\hbar\omega - 3B$ | 2. $\hbar\omega - B$  |
| 3. $\hbar\omega + 4B$ | 4. $2\hbar\omega + B$ |

69. A diatomic molecule has vibrational states with energies  $E_v = \hbar\omega \left(v + \frac{1}{2}\right)$  and rotational states with energies  $E_j = Bj(j + 1)$ , where  $v$  and  $j$  are non-negative integers. Consider the transitions in which both the initial and final states are restricted to  $v \leq 1$  and  $j \leq 2$  and subject to the selection rules  $\Delta v = \pm 1$  and  $\Delta j = \pm 1$ . Then the largest allowed energy of transition is

- |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. $\hbar\omega - 3B$ | 2. $\hbar\omega - B$  |
| 3. $\hbar\omega + 4B$ | 4. $2\hbar\omega + B$ |

70. He-Ne लेसर Ne की दो ऊर्जा अवस्थाओं, जो 2.26 eV से भिन्न हैं, के उपयोग करता है। प्रकाशिक पंपन की स्थायी अवस्था स्थितियों में ऊपरी अवस्था तथा निचली अवस्थाओं में परमाणु संख्याओं का अनुपात 1/20 है। तंत्र का तुल्य ताप है लगभग: (बोल्ट्समान अचर  $k_B = 8.6 \times 10^{-5}$  eV/K)

- |                |             |
|----------------|-------------|
| 1. $10^{10}$ K | 2. $10^8$ K |
| 3. $10^6$ K    | 4. $10^4$ K |

70. A He-Ne laser operates by using two energy levels of Ne separated by 2.26 eV. Under steady state conditions of optical pumping, the equivalent temperature of the system at which the ratio of the number of atoms in the upper state to that

in the lower state will be  $1/20$ , is approximately (the Boltzmann constant  $k_B = 8.6 \times 10^{-5}$  eV/K)

- |                |             |
|----------------|-------------|
| 1. $10^{10}$ K | 2. $10^8$ K |
| 3. $10^6$ K    | 4. $10^4$ K |

71. यदि चार्म क्वार्क की चार्म क्वांटम संख्या  $C = 1$  दी जाती है, तो गेलमान-निशीजिमा फार्मूला जो विध्युत आवेश के लिए है, को क्वार्क की चार सुरुचियों के लिए किस प्रकार परिवर्तित करना होगा?

1.  $I_3 + \frac{1}{2}(B - S - C)$
2.  $I_3 + \frac{1}{2}(B - S + C)$
3.  $I_3 + \frac{1}{2}(B + S - C)$
4.  $I_3 + \frac{1}{2}(B + S + C)$

71. The charm quark is assigned a charm quantum number  $C = 1$ . How should the Gellmann-Nishijima formula for electric charge be modified for four flavours of quarks?

1.  $I_3 + \frac{1}{2}(B - S - C)$
2.  $I_3 + \frac{1}{2}(B - S + C)$
3.  $I_3 + \frac{1}{2}(B + S - C)$
4.  $I_3 + \frac{1}{2}(B + S + C)$

72. अभिक्रिया  ${}^2_1D + {}^2_1D \rightarrow {}^4_2He + \pi^0$  प्रबल अन्योन्यक्रियाओं द्वारा घट नहीं सकता क्योंकि वह इसके संरक्षण का उल्लंघन करता है:

1. कोणीय संवेग
2. विध्युत आवेश
3. बैरियान संख्या
4. आईसोस्पिन

72. The reaction  ${}^2_1D + {}^2_1D \rightarrow {}^4_2He + \pi^0$  cannot proceed via strong interactions because it violates the conservation of

1. angular momentum
2. electric charge
3. baryon number
4. isospin

73. ग्रैफीन के एक द्विविम चादर में अल्प-ऊर्जा इलेक्ट्रोनिक उत्तेजन  $E(\vec{k}) = \hbar v k$  से दिये

जाते हैं, जहां  $v$  उत्तेजनों की गति है। अवस्थाओं का घनत्व इसके अनुपात में है।

- |              |              |
|--------------|--------------|
| 1. $E$       | 2. $E^{3/2}$ |
| 3. $E^{1/2}$ | 4. $E^2$     |

73. The low-energy electronic excitations in a two-dimensional sheet of graphene is given by  $E(\vec{k}) = \hbar v k$ , where  $v$  is the velocity of the excitations. The density of states is proportional to

- |              |              |
|--------------|--------------|
| 1. $E$       | 2. $E^{3/2}$ |
| 3. $E^{1/2}$ | 4. $E^2$     |

74.  $np^2$  आणविक विन्यासों के निम्न पद प्रतीकों  ${}^1S_0, {}^3P_0, {}^3P_1, {}^3P_2$  तथा  ${}^1D_2$ , में से कौन-सी आध्यावस्था है?

- |              |              |
|--------------|--------------|
| 1. ${}^3P_0$ | 2. ${}^1S_0$ |
| 3. ${}^3P_2$ | 4. ${}^3P_1$ |

74. Of the following term symbols of the  $np^2$  atomic configurations,  ${}^1S_0, {}^3P_0, {}^3P_1, {}^3P_2$  and  ${}^1D_2$ , which is the ground state?

- |              |              |
|--------------|--------------|
| 1. ${}^3P_0$ | 2. ${}^1S_0$ |
| 3. ${}^3P_2$ | 4. ${}^3P_1$ |

75. मानें कि हम कोश माडल में नाभिक विभव को एक त्रिविम समदैशिक आवर्त दोलक से सन्निकटित करते हैं। न्यूनतम दो ऊर्जा अवस्थाओं का कोणीय संवेग क्रमशः  $l = 0$  तथा  $l = 1$  हैं, निम्न दो नाभिकों में प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की स्थायित्व (मैंजिक) संख्या किनमें हैं?

- |                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 1. ${}^4_2He$ तथा ${}^{16}_8O$ | 2. ${}^2_1D$ तथा ${}^8_4Be$    |
| 3. ${}^4_2He$ तथा ${}^8_4Be$   | 4. ${}^4_2He$ तथा ${}^{12}_6C$ |

75. Let us approximate the nuclear potential in the shell model by a three dimensional isotropic harmonic oscillator. Since the lowest two energy levels have angular momenta  $l = 0$  and  $l = 1$  respectively, which of the following two nuclei have magic numbers of protons and neutrons?

- |                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 1. ${}^4_2He$ and ${}^{16}_8O$ | 2. ${}^2_1D$ and ${}^8_4Be$    |
| 3. ${}^4_2He$ and ${}^8_4Be$   | 4. ${}^4_2He$ and ${}^{12}_6C$ |

रफ कार्य/ROUGH WORK

---